

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 जनवरी 2010—पौष 16, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शोक प्रस्ताव

क्र. एफ 08-08-2009-एक-4

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय श्री हरिभाऊ जोशी का 17 दिसम्बर, 2009 को उज्जैन में
आकस्मिक निधन हो गया.

स्वर्गीय श्री हरिभाऊ जोशी ने 1977-80 में मध्यप्रदेश शासन में मंत्री पद को सुशोभित किया
था. आप प्रदेश के विकास के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे.

राज्य मंत्रि-परिषद् स्वर्गीय श्री हरिभाऊ जोशी को मध्यप्रदेश के विकास एवं उन्नति हेतु उनके
योगदान के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है.

राकेश साहनी, मुख्य सचिव.